

अपने COVID-19 वैक्सीन के अपॉइंटमेंट के लिए परिवहन कैसे प्राप्त करें

अवलोकन

यदि आपके पास Apple Health (Medicaid) है और आपको अपनी स्वास्थ्य देखभाल अपॉइंटमेंट के लिए किसी मदद की आवश्यकता है, तो Health Care Authority (HCA, स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरण) आपके परिवहन का बंदोबस्त करेगा। आप इस सेवा का उपयोग गैर-आपातकालिक चिकित्सा अपॉइंटमेंट, जैसे COVID-19 टीकाकरण के लिए कर सकते हैं।

परिवहन संबंधी सहायता कैसे प्राप्त करें

अपनी काउंटी के परिवहन ब्रोकर को कॉल करें (ब्रोकर संपर्क सूची पृष्ठ 2 पर देखें)। ब्रोकर आपकी पात्रता की जांच करने के बाद आपकी आवागमन की आवश्यकताओं के अनुसार परिवहन का प्रबंध करेगा। यदि आप इस सेवा को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, तो ब्रोकर आपको अन्य स्थानीय संसाधनों के बारे में मार्गदर्शन देगा।

कॉल करते समय कृपया निम्नलिखित जानकारी तैयार रखें:

- आपका ProviderOne सेवा कार्ड
- वह पता जहां से आपको ले जाया जाना है
- आपके टीके की अपॉइंटमेंट का स्थान
- आपके चिकित्सा सेवा-प्रदाता का नाम और फ़ोन नंबर (यदि आप COVID-19 के सामूहिक टीकाकरण स्थल पर जाना चाहते हैं, तो आपको इस जानकारी की आवश्यकता नहीं है)
- आपकी अपॉइंटमेंट की सही-सही तिथि और समय
- स्वास्थ्य देखभाल नियुक्ति का प्रकार (जैसे, डायलिसिस, Obstetrics (OB, प्रसूति), दांत संबंधी, COVID-19 वैक्सीन, आदि)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गैर-आपातकालिक चिकित्सा परिवहन क्या है?

यह ऐसी सेवा है जो आपकी सहायता करती है और स्वास्थ्य सेवा अपॉइंटमेंट दिलवाती हैं। सबसे आम प्रकार की परिवहन सहायता में शामिल हैं सार्वजनिक बस, टैक्सी, व्हीलचेयर वैन, गैस वाउचर्स, और माइलेज के लिए प्रतिपूर्ति। इस सेवा में स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, या सुरक्षित परिवहन शामिल नहीं है।

क्या मैं गैर-आपातकालिक चिकित्सा परिवहन का उपयोग COVID-19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट के लिए कर सकता हूँ?

जी हां, हम किसी भी टीकाकरण स्थल के लिए आने-जाने का परिवहन कवर करते हैं, जिसमें फार्मसी, सामूहिक टीकाकरण स्थल, और ड्राइव-थ्रू क्लीनिक शामिल हैं। कृपया अपने काउंटी के परिवहन ब्रोकर को कॉल करें। वे आपकी गतिशीलता आवश्यकताओं के लिए ट्रिप का प्रबंध करेंगे।

गैर-आपातकालिक चिकित्सा परिवहन का उपयोग कौन कर सकता है?

Apple Health (Medicaid) वे ग्राहक जिनको परिवहन के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे इस सेवा के लिए पात्र हैं।



मुझे गैर-आपातकालिक परिवहन के लिए किसे कॉल करना होगा?

उस परिवहन ब्रोकर से संपर्क करें जो आपके काउंटी में अपनी सेवाएं देता है। वे आपकी पात्रता की जाँच करेंगे और उसके बाद आपकी ट्रिप का समन्वय करेंगे। यदि आप इस सेवा के पात्र नहीं हैं, तो वे आपका अन्य किसी स्थानीय संसाधन से संपर्क करवाएंगे।

मुझे परिवहन का अनुरोध करने के लिए कॉल कब करना चाहिए?

जितनी जल्दी हो सके, आपको अपनी चिकित्सा नियुक्ति से कम से कम दो व्यावसायिक दिन पहले कॉल करना चाहिए। यदि संसाधन उपलब्ध हैं, तो सूचना देने के बाद दो कार्य दिवसों के भीतर अत्यावश्यक ट्रिप संभव हो सकती हैं।

ब्रोकर संपर्क

ब्रोकर का नाम	सेवा देने वाली काउंटी	फोन नंबर
Hopelink	King, Snohomish	1-800-923-7433
Northwest Regional Council	Island, San Juan, Skagit, Whatcom	1-800-860-6812
Paratransit Services	Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Thurston	1-800-846-5438
Human Services Council	Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum	1-800-752-9422 (विकल्प 2)
People for People	Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla Walla, Yakima	1-800-233-1624
Special Mobility Services	Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Whitman	1-800-892-4817

अधिक जानकारी के लिए कृपया Non-Emergency Medical Transportation (NEMT, गैर-आपातकालिक चिकित्सा परिवहन) की वेबसाइट hca.wa.gov/transportation-help को देखें।



820-NonDOH May 2021 Hindi

इस दस्तावेज़ को किसी दूसरे प्रारूप में पाने का अनुरोध करने के लिए, 1-800-525-0127 पर कॉल करें। बहरे या कम सुनने वाले ग्राहक, कृपया 711

(Washington Relay) पर कॉल करें या civil.rights@doh.wa.gov पर ईमेल करें।